

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2023 — अश्विन 19, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

क्र. 21/चार/मतपत्र/विसनि./2023/4752.— भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2023/SDR/Vol.I, दिनांक 10-10-2023 छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के लिये विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के वर्ग संबंधी सूचना एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

सं. 52/2023/एसडीआर/खंड-I.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 एवं का. आ. सं. 3778 (अ.) दिनांक 23 अगस्त, 2023 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जरिए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

हस्ता./-

(एस.बी.जोशी)

प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 10th October, 2023

NOTIFICATION

No. 52/2023/SDR/Vol.I.- In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing general elections to the Legislative Assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Telangana and bye election in 43-Tapi(ST) Assembly Constituency of Nagaland, to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and SO No.3778(E), dated 23rd August, 2023.

By Order,

Sd/-

(S.B. Joshi)

Principal Secretary.